

September 09, 2025

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
Scrip Code - 506390

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051
Scrip Symbol - HEUBACHIND

Dear Sir / Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 regarding recommendation of the Committee of Independent Directors of the Company in relation to an open offer to the public shareholders of the Company made by Sudarshan Europe B.V. ("Acquirer") along with Sudarshan Chemical Industries Limited ("PAC1"), Sudarshan Switzerland HLD1 AG (formerly known as Heubach Holding Switzerland AG) ("PAC-2"), and Sudarshan Switzerland HLD2 AG (formerly known as Heubach Ebita Chemiebeteteiligungen AG) ("PAC-3") and PAC-1, PAC-2 and PAC-3 shall collectively hereinafter be referred to as ("PACs") ("Open Offer").

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended from time to time, we herein enclose copy of the newspaper advertisement dated Tuesday, September 09, 2025 containing reasoned recommendations of the Committee of Independent Directors of the Company on the open offer, as published in the following newspapers:

1. Financial Express - English Daily (All Editions)
2. Jansatta - Hindi Daily (All Editions)
3. Navshakti - Marathi Daily (Mumbai Edition)

Kindly take the same on record.

Thanking You,
Yours Faithfully,

For HEUBACH COLORANTS INDIA LIMITED

ADWAIT JOSHI
COMPANY SECRETARY

Encl.: As above

NILE LIMITED

An ISO 9001 Company

CIN: L27029AP1984PLC004719

Regd. Office: Plot No 38 & 40, APIC Industrial Park, Gajulamandam (V), Renigunta (M), Tirupati - 517520, Chittoor Dist., Andhra Pradesh

Corp. Office: Plot No.24/A, MLA Colony, Rd. No.12, Banjara Hills, Hyderabad- 500 034, Telangana. Ph: 040-23606641, Fax: 040-23606640

E-mail: legal@nilelimited.com; Website: www.nilelimited.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS Transfer of shares to IEPP

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with Investors Education Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ('the Rules') the Company will transfer those equity shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), in respect of which dividend amounts have not been claimed and/or paid for seven consecutive years or more.

As per the Rules, the Company sent letters to those shareholders who did not claim/not encash dividend instruments for the last seven years, and whose shares are proposed to be transferred to the IEPP, unless they claim the unclaimed and unpaid dividends on or before 10.12.2025. The details of such shares are also displayed on the website of the Company (www.nilelimited.com).

Therefore, Notice is hereby given to all such shareholders to take appropriate action and submit requisite documents to claim such unclaimed/unpaid dividends declared by the Company for FY 2018-19 onwards immediately. In the absence of receipt of a valid claim along with the required documents from the concerned shareholder, the Company will proceed to transfer the said shares to the IEPP without further notice.

No claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPP after that. However, the shareholders can claim the shares transferred to IEPP by complying with the due procedure given in the Rules, details of which are available at 'www.iepf.gov.in'.

For any information/clarification on the matter, the concerned shareholder may contact the Company or XL Softech Systems Ltd., Registrar and Transfer Agent (RTA) at # 3, Sagar Society, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana, India- 500034, E-mail: xfield@gmail.com.

For Nile Limited
Sd/-
Rajani K
Company Secretary

Place: Hyderabad
Date: 8th September, 2025

SAREGAMA INDIA LIMITED

CIN : L22213WB1946PLC014346

Regd. Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata – 700028.

Tel: 033-2551 2984/4773, E-mail: co.sec@saregama.com,
Web: www.saregama.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

NOTICE is hereby given that Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PIR/2025/97 dated 2nd July, 2025 ("Circular") has facilitated mechanism for a "Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares" and accordingly, all physical share transfer deeds lodged for transfer with the Company or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") prior to discontinuation of physical mode of transfer, i.e., 1st April, 2019 and rejected/returned by the Company/RTA due to deficiency in the documents or were not processed due to any other reason, shall be provided with an opportunity to re-lodge the same with the Company/RTA during a special window period of six months from 7th July, 2025 till 6th January, 2026. During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. However, due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.

Eligible Shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the RTA of the Company, i.e., M/s. MUGF Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Pvt Ltd) Unit : C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083, within the stipulated period.

Contact Details of RTA:

- Phone: 8108116767
- Shareholders Request: <https://web.in.mpmg.mugf.com/helpdesk/ServiceRequest.html>

Additionally, shareholders are encouraged to register and track their requests through the SWAYAM portal: <https://swayam.in.mpmg.mugf.com>

For Saregama India Limited
Sd/-
Nayan Kumar Misra
Company Secretary

Dated : 8th September, 2025
Place : Mumbai

TCC CONCEPT LIMITED

Regd. Office: 5th Floor, VB Capital Building, Range Hill Road, Opp. Hotel Symphony, Bhoslenagar, Shivajinagar, Pune-411007 | CIN: L8200PNI1984PLC222140
Cont.: 020 2952 0141 | Email: compliance@tccld.in | Website: www.tccld.in

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION REGARDING E-VOTING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of TCC Concept Limited ("Company"), will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as stated in the Notice of the AGM ("Notice").

The Company has electronically sent the Notice of the AGM along with the Explanatory Statement and Integrated Annual Report for the financial year 2024-25 on September 8, 2025 to all the members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depositories/Depository Participants ("DPs")/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"). The Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for the financial year 2024-25 are also hosted on the Company's website at www.tccld.in besides being available on the website of Stock Exchange (i.e. BSE Limited at www.bseindia.com) and on the website of MUGF Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited) ("MUGF") at <https://in.mpmg.mugf.com>. A physical communication containing the web link of the Integrated Annual Report for FY 2024-25 will be sent to those shareholders whose email addresses are not registered with the Company/Depositories/DPs/RTA. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to compliance@tccld.com mentioning his/her/ its folio number/ DP ID and Client ID.

Remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of MUGF as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions comprising manner of e-voting, including e-voting remotely by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The Notice of the AGM also outlines the procedure for: (a) individuals who become members of the Company after the dispatch of the Notice and hold shares as of the Cut-off Date (September 23, 2025); and (b) members who have forgotten their User ID and Password, to obtain or generate the necessary login credentials.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting: 9:00 a.m. (IST) on Saturday, September 27, 2025
End of remote e-voting: 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 29, 2025

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by MUGF upon expiry of the aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM.

Only a person, whose name is recorded as on the Cut-off Date, i.e., Tuesday, September 23, 2025, in the Register of members / Register of beneficial owners maintained by the Depositories, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Insta Poll.

Manner of registering / updating e-mail address:

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address with the Company, are requested to register / update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the company at www.tccld.in) duly filled and signed along with requisite supporting documents to MUGF Intime India Private Limited at C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083.

b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their e-mail address with their Depository Participant(s), are requested to register / update the same with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

Joining the AGM through VC / OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM, through InstaMeet, at <https://instameet.in.mpmg.mugf.com>. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the Notice of AGM. Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

For any query relating to attending the AGM through VC/OAVM or e-Voting before/ during the AGM, Members may send a request to instameet@in.mpmg.mugf.com or contact on - Tel: 022-49186175.

For TCC Concept Limited
Sd/-
Isha Arora
Company Secretary

Dated on this September 9, 2025 at Pune.

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF
ESAAAR (INDIA) LIMITED**

("ESAAAR"/ "EIL"/ "TARGET COMPANY"/ "TC") (Corporate Identification No. L67120MH1951PLC222871)

Registered Office: Shop No. 06, Prathamesh Avenue, Datta Mandir Road, Malad East, Mumbai, Maharashtra, India, 400097;
Corporate Office: 101, First Floor, Western Edge I, Western Express Highway, Borivali (East), Mumbai, Maharashtra, India, 400066
Phone No.: +91-8104417080; 8858498847; Email id: cs@esaar.in; Website: www.esaar.in

This Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of M/s. Prabhat Capital Investments Limited (Acquirer) in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 53,15,050 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the Fully Paid-up Equity and voting share capital of the Target Company. The Offer Opening Public Announcement pursuant to Detailed Public Statement ("DPS") and the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer has appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions) and Pratahkal - Marathi Daily (Mumbai edition) on August 29, 2025.

- Acquirer has completed the dispatch of the Physical Letter of Offer on August 22, 2025 to such shareholders whose email addresses were not registered with Target Company pursuant to regulation 18(2) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations")
- Various Letter of Offers are returning undelivered. Hence it is to be reiterated that copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Manager to the Offer, www.navigantcorp.com.
- Shareholders who have not received the Letter of Offer can tender the shares in accordance with procedure described in clause 8.15 on 27 of Letter of Offer, which is reproduced as below:

Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:

Persons who have acquired equity shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified date, or those who have not received the Letter of offer, may also participate in this Offer. A shareholder may participate in the Offer by approaching their broker and tender Equity shares in the Open Offer as per the procedure mentioned in this Letter of Offer or in the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement. The Letter of Offer along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgement will be dispatched to all the eligible shareholders of the Target Company as on the Identified date. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such eligible shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or BSE website (www.bseindia.com) or Merchant Banker website (www.navigantcorp.com) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity shares of the Target Company. Alternatively in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder, stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents such as physical share certificates and Form SH-4 in case of shares being held in physical form. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by the BSE before the closure of the Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.
Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078
Email id: navigant@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com
SEBI Registration No: INM000012243
Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai
Date: September 08, 2025

HEUBACH COLORANTS INDIA LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L24110MH1956PLC010806

Registered Office: Rupa Renaissance, B Wing, 25th Floor, D-33, MIDC Road, TTC Industrial Area Junagar, Navi Mumbai, Maharashtra, India, 400705. Contact: +91-22 20874405; Website: www.heubach.com
E-mail ID: investor.relations_india@heubach.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of HEUBACH COLORANTS INDIA LIMITED (the "Target Company") to the Public Shareholders of the Target Company in relation to the Open Offer (hereinafter defined) made by Sudarshan Europe B.V. ("Acquirer") together with Sudarshan Chemical Industries Limited ("PAC 1"), Sudarshan Switzerland HLD1 AG (formerly known as Heubach Holding Switzerland AG) ("PAC 2") and Sudarshan Switzerland HLD2 AG (formerly known as Heubach EBITO Chemiebetrieilungen AG) ("PAC 3") (PAC 1, PAC 2, PAC 3, collectively "PACs"), in their capacity as persons acting in concert with the Acquirer for the purpose of the Open Offer, pursuant to and in compliance with Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 ("SEBI SAST Regulations")

1.	Date	September 8, 2025
2.	Name of the Target Company (TC)	Heubach Colorants India Limited
3.	Details of the Open Offer pertaining to TC:	Open offer for acquisition of up to 60,01,268 (Sixty Lakh One Thousand Two Hundred Sixty-Eight) fully paid-up equity shares of face value of INR 10/- (Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares"), representing 26.00% (twenty six percent) of the total voting share capital of the Target Company as of the tenth working day from the closure of the tendering period of the open offer at an offer price of INR 602.03 (Indian Rupees Six Hundred and Two Paise Three Only) by the Acquirer along with PACs ("Open Offer"). The Public Announcement dated October 16, 2024 ("PA"), the Detailed Public Statement published on March 10, 2025 ("DPS"), the Draft Letter of Offer dated March 18, 2025 ("DLOF"), and the Letter of Offer dated September 1, 2025 ("LOF") have been issued by Axis Capital Limited, the manager to the Open Offer, on behalf of the Acquirer and the PACs.
4.	Name(s) of the acquirer and PACs with the acquirer	Sudarshan Europe B.V. ("Acquirer"); Sudarshan Chemical Industries Limited ("PAC 1"); Sudarshan Switzerland HLD1 AG (formerly known as Heubach Holding Switzerland AG) ("PAC 2"); and Sudarshan Switzerland HLD2 AG (formerly known as Heubach EBITO Chemiebetrieilungen AG) ("PAC 3")
5.	Name of the Manager to the offer	Axis Capital Limited Address: 1st Floor, Axis House, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 Fax: +91 22 4325 3000 Email: hcol.openoffer@axiscap.in Investor Grievance Email: complaints@axiscap.in Contact Person: Mayuri Arya/Harish Patel Website: www.axiscapital.co.in SEBI Registration No.: INM000012029
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Kewal Handa (DIN: 00056826) – Chairman Sunimal Talukdar (DIN: 00920608) - Member Diana Dhote (DIN: 10558367) – Member
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship, if any)	The members of the IDC are independent directors on the Board of the Target Company. None of the members of IDC hold any equity shares of the Target Company. None of the members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any equity shares/other securities of the Target Company during the (a) 12 (twelve) month period preceding the date of PA and (b) period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer and PACs (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship, if any)	None of the members of the IDC: (a) are directors on the Board of the Acquirer; (b) hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or (c) have any contracts/ relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the Equity shares/ other securities of the Acquirer and PAC by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any equity shares / other securities of the Acquirer and/ or the PACs during the (a) 12 (twelve) month period preceding the date of PA and (b) period from the date of the PA till the date of this recommendation.
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC has reviewed the PA, DPS, DLOF and LOF issued in relation to the Open Offer. Grant Thornton Bharat LLP (formerly Grant Thornton India LLP), engaged to provide its independent opinion with respect to the Offer Price, has opined that the Offer Price of INR 602.03 (Indian Rupees Six Hundred and Two Paise Three Only) per equity share is fair and reasonable and is in accordance with Regulation 8(1) and Regulation 8(3) of the SEBI SAST Regulations. Based on above, the IDC is of the opinion that as on the date of this recommendation, (a) the Offer Price of INR 602.03 (Indian Rupees Six Hundred and Two Paise Three Only) per equity share offered by the Acquirer and PACs is in accordance with Regulation 8(1) and Regulation 8(3) of the SEBI SAST Regulations, and (b) the Open Offer appears to be fair and reasonable.
12.	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	The recommendation of the IDC set out in the paragraph above is inter alia based on the following: (a) The Offer Price of INR 602.03 (Indian Rupees Six Hundred and Two Paise Three Only) per equity share is the highest of the prices determined as per the prescribed parameters under the SEBI SAST Regulations and is consequently in accordance with Regulation 8(1) and Regulation 8(3) read with Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations. (b) Offer Price of INR 602.03/- comprises of: (a) INR 578.11 per Equity Share, computed in accordance with Regulation 8(1) and Regulation 8(3) of the SEBI SAST Regulations; and (b) interest of INR 23.92/- per Equity Share, computed at a rate of 10.00% per annum for the period between the date of entering into the underlying transaction (i.e. October 11, 2024), and the date of publication of the DPS (i.e. March 10, 2025), pursuant to Regulation 8(12) of SEBI SAST Regulations; Further, the members of IDC draw attention to the closing market price of the Equity Shares of Target Company on National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") as on September 5, 2025 being INR 594.15 per Equity Share and INR 594.50 per Equity Share, respectively, which is lower than the Offer Price. The public shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer. The statement of recommendation will also be available on the website of the company at www.heubach.com .
13.	Details of voting pattern	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC present at the meeting of IDC held on September 8, 2025
14.	Details of Independent Advisors, if any	(i) Grant Thornton Bharat LLP (formerly Grant Thornton India LLP) (ii) Khaitan & Co
15.	Any other matter(s) to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI SAST Regulations.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of
HEUBACH COLORANTS INDIA LIMITED

Sd/-
Kewal Handa
Chairman of the IDC
DIN: 00056826

Place: Mumbai, Maharashtra, India
Date: September 8, 2025



PLAZA WIRES LIMITED

CIN: L31300DL2006PLC152344
Registered Office: A-74, Okhla Industrial Area, Phase-2 South Delhi, New Delhi, Delhi – 110 020
Email ID: compliance@plazawires.in, Tel No: 011- 6636 9696; Website: www.plazawires.in

Notice is hereby given that the Nineteenth (19th) Annual General Meeting ("AGM") of Plaza Wires Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Tuesday, September 30, 2025** at 12:30 P.M. (IST) at A-74 Okhla Industrial Area, Phase-2, New Delhi, South Delhi, Delhi-110020 through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the rules framed thereunder, read with General Circular number 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with earlier circulars issued by MCA in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular number SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/PIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with the earlier circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars") to transact the Businesses as set out in the Notice convening 19th AGM.

In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice of the 19th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 have already been sent only by electronic mode to the shareholders, whose names appeared in the Register of Members as at the closing hours of business on Friday, August 29, 2025 and whose email addresses are registered with the depository participants or with the Company, or with KFin Technologies Limited ("KFin"), Registrar and Transfer Agents ("RTA") of the Company. The emailing of the said documents has been completed on **Saturday, September 06, 2025**.

E-VOTING INFORMATION

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility of remote e-voting and e-voting during the AGM through National Securities Depository Limited (NSDL) to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice. The Board has appointed Mr. Sachin Sharma (C.P. No.: 20423) or failing him Mr. Dinesh Trivedi (C.P. No.: 22407) or failing him, Mr. Vishwanath (C.P. No.: 25099), Designated Partners of M/s. Sharma and Trivedi LLP (LLPIN: AAW-6850), Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. The Members may note the following:

- The Ordinary and Special business set out in the AGM Notice may be transacted through voting by electronic means
- Members holding shares as on the cut-off date i.e., **Tuesday, September 23, 2025**, may cast their vote electronically on businesses as set out in Notice through such e-voting.
- Any person who acquires shares and become a Member of the Company after the dispatch of Notice and holds shares as on the cut-off date i.e., **Tuesday, September 23, 2025**, may obtain the login ID and password by sending a request at <https://www.evoting.nsdl.com/>. However, if you are already registered with NSDL for e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- The remote e-voting period will commence on **Saturday, September 27, 2025** at 09:00 A.M. and will end on **Monday, September 29, 2025** at 05:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Any person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the depository as on cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.
- The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the members participating through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the meeting.
- The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM can attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again during the meeting.
- Members may note that the Notice of Annual General Meeting and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 are also available on the website of the Company at www.plazawires.in, website of BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and NSDL e-voting website: at <https://www.evoting.nsdl.com/>.
- In case Shareholders/ Members have any queries/ grievances regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Members and e-voting User Manual available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com/> or call on toll free no.: 022-48867000.

BOOK CLOSURE

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is hereby informed that the Share Transfer Books and Register of Members of the Company shall remain closed from **Wednesday, September 24, 2025 to Tuesday, September 30, 2025** (both days inclusive) for the purpose of 19th AGM of the Company.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, the manner of casting the vote through Remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For PLAZA WIRES LIMITED
Sd/-
(BHAVIKA KAPIL)
Company Secretary
Membership No. A62612

Date: September 06, 2025
Place: New Delhi

JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

CIN : L14106UP1995PLC019017

Registered Office: Sector 128, Noida-201 304, Uttar Pradesh, India Tel.: +91 (120) 2470800
Delhi Office: JA House", 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057

Tel.: +91 (11) 49828500 Fax: +91 (11) 26145389

Corporate Office: 64/4, Site 4, Industrial Area, Sahibabad, Distt. Ghaziabad-201010 Uttar Pradesh
Tel.: +91 (0120) 4963100, 4964100 Website: www.jalindia.com; E-mail: jal.investor@jalindia.co.in

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of Jaiprakash Associates Limited is scheduled to be held on Monday, the September 29, 2025 at 11.30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members at the common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time including the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and the provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and various circulars issued by the SEBI, to transact the business as set out in the AGM Notice dated September 06, 2025. The information and instructions for members to attend AGM through VC/ OAVM are explained in the notes to the Notice. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the e-mail communication containing links to download the Notice of the 28th AGM and the Annual Report for the year 2024-25 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditors' Reports and other documents required to be attached therewith have been sent on 7th September, 2025, to the members of the Company, whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories as on **29th August, 2025**. Further, as required by Regulation 36(1) of the SEBI Listing Regulations, a letter containing the weblink to access the Notice and Annual Report has also been sent to those members whose e-mail addresses are not registered with Company/RTA or with their respective Depository Participants. The Annual Report and the Notice are available on Company's weblink <http://jalindia.com/annualreports>, websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of (India) Limited and the Notice of AGM is also available on weblink of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) <https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp>.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2

रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड
सीआईएन : L50401DL2018PLC329756
पंजीकृत कार्यालय: के-24, ऊपरी भूतल, कैपेच नंबर 107/10 नम रोड, राजा पुरी, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059
ईमेल: cs@saahneyauto.com, **दूरभाष:** 011-46622444, **वेबसाइट:** www.sawhneyauto.com

08वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड के सदस्यों की 08वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 12.15 बजे बीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (बीसी)/अन्य ऑडियो बीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (ओबीसी) के माध्यम से एजीएम के नोटिस में उल्लिखित व्यवसाय (व्यवसायों) का समाधान करने के लिए आयोजित की जाएगी, जिसे एजीएम बुलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजीएम का नोटिस 08 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दिया है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिजिटलरी के साथ पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.sawhneyauto.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिनमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम, एमसीए द्वारा निर्धारित डिवाइसिंग शामिल है के अनुपालन में सदस्यों को नोटिस डिजिटलरी परिसर (इडिया) लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों का मतदान अधिकार मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 27 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होगी और सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग मॉडल इसके बाद सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा निष्पन्न कर दिया जाएगा। एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और चिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। चिन सदस्यों ने पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

एजीएम में किए जाने वाली कार्यवाही के मद्दे से संबंधित दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस में कारोबारी घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं। सभी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की 08वीं एजीएम के उद्देश्य से, बुधवार, 24 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी की सदस्य बनता है और जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिजिटलरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामित्व के विवरण में कट-ऑफ तारीख यानी 23 सितंबर, 2025 को दिखाई देता है, वह कंपनी की वेबसाइट www.sawhneyauto.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.cdslindia.com/> पर एजीएम बुलाने की सूचना दे सकता है। ऐसे सदस्य एजीएम की उक्त सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि शेयरधारकों/निवेशकों के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न है, तो वे <https://www.cdslindia.com/> पर डाउनलोड अनुमति के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (फ़ैक्स) और सीडीएसएल ई-वोटिंग मॉडल डेव सकते हैं या आप हमें helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या हमें 1800-21-09911 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड
हस्ता./—
राहुल साहनी
(कंसल्ट निदेशक)

दिनांक: 08.09.2025
स्थान: दिल्ली

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED
CIN : L29199DL1985PLC015796
OIL DRILLING EQUIPMENT MANUFACTURING AND SERVICES
Corporate Office - 26th Floor, Astralis Tower, Supernova Complex, Sector- 94, Noida - 201301, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India. Contact - 0120-4842400, E-mail: COMPECT@UDTLTD.COM

NOTICE OF 43RD ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING AND BOOK CLOSURE

1. **NOTICE** is hereby given that the 43rd AGM of the Company will be held on **Tuesday, September 23, 2025 at 11:30 a.m.** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the businesses, as set out in Notice of AGM dated August 12, 2025.

2. The members attending the AGM through VCOAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

3. Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report FY 2024-25 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants/RTA.

4. The dispatch of Notice of AGM has been completed on **August 29, 2025.**

5. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date i.e. Tuesday, September 16, 2025** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and cast their votes on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM.

6. The remote e-voting period commences prior to the AGM on **Saturday, September 20, 2025 (10:00 am) (IST)** and ends on **Monday, September 22, 2025 (5:00 pm) (IST)**. The e-voting facility also available during the AGM from the commencement of AGM till 30 minutes from the post conclusion of AGM.

7. The record date for purpose of determining entitlement of shareholders for the final dividend for financial year 2024-25 is **Tuesday, September 16, 2025**. The payment of dividend shall be made on October 10, 2025, subject to the members approval at the 43rd AGM.

8. Any person who acquires shares of the Company and becomes members of the Company after sending the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or beetala@gmail.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting the votes.

9. The Notice of AGM and Annual Report 2024-25 is available on the Company's website www.udtltd.com and also on the website of Stock Exchange's website www.bseindia.com and www.nseindia.com.

10. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

11. The Company has appointed M/s Balraj Sharma & Associates, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and the results of the e-voting along with the Scrutinizers' Report shall be placed on the Company's website www.udtltd.com and the Company shall simultaneously forward the results to the Stock Exchange's i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

12. **BOOK CLOSURE** - The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, September 17, 2025 to Tuesday, September 23, 2025** (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the AGM Notice and in particular, instruction for joining the AGM, manner of casting votes through remote e-voting and voting at AGM.

For United Drilling Tools Limited
Sd/-
Anand Kumar Mishra
Company Secretary

एनचेंट ज्वेलरी लिमिटेड
सीआईएन : L74899HR1995PLC032759
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 3 और 4, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-1220 15, हरियाणा | फोन: 0124-2343250
ईमेल: www.enchantejewellery.co.in
वेबसाइट: enchantee@enchantejewellery.co.in

39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और दूरस्थ ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनचेंट ज्वेलरी लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को प्रातः 9:00 बजे #12, सेक्टर-28, गुरुग्राम-122001, हरियाणा में आयोजित की जाएगी। पंजीकृत वार्षिक रिपोर्ट, फंड मैप, प्रांकी फॉर्म और उपस्थिति पत्रों उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई है जिनके पताधार विवरण कंपनी के आरटीए और डिजिटलरी प्रतियां वित्तियों के पास पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज भी उपलब्ध हैं और इन्हें <https://enchantejewellery.co.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सभी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम के स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए) का उपयोग करके नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है।

केवल वही व्यक्ति जिसका नाम मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 (कट-ऑफ तिथि) तक सदस्यों के रजिस्टर या डिजिटलरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वागितों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा। सदस्यों के मतदान अधिकार (रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या बैठक में मतदान पत्रों के माध्यम से मतदान के लिए) कंपनी में उनकी संबंधित चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में होगा।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (IST) से शुरू होगी और सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (IST) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं, और उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इसको अलावा, कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदाधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में देवारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा बैठक स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे मतदान पत्र के माध्यम से बैठक में अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो सदस्य पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है: enotices@linktime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। 'यूजर आईडी' और 'पासवर्ड' प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी बैठक की सूचना में दी गई है, जो उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है। तथापि, यदि सदस्य दूरस्थ ई-मतदान के लिए एमएसबीएस/सीडीएसएल से पहले से पंजीकृत हैं, तो उसकी मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, कृपया कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक की विस्तृत सूचना देखें। यदि आपको पास रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल देखें जो <https://enchantee.linktime.co.in> पर उपलब्ध है या 022-40186600 पर संपर्क करें या enotices@in.mnms.mufg.com पर अनुरोध भेजें। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित शिकायतों के लिए, कृपया निम्नलिखित पर संपर्क करें:

एमयूएफ सी ईटएम इडिया प्राइवेट लिमिटेड
 नोबल हाइड्रस, पटली मॉडल, सी-1 प्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जलक पुरी, नई दिल्ली-110058
 फोन: +91-11-494 11 000; फैक्स: +91-11-414 10 591,
वेबसाइट: <https://in.mnms.mufg.com>

एनचेंट ज्वेलरी लिमिटेड
 के बोर्ड के आदेश से
हस्ता./—
सी.एल. मेहरा (निदेशक)
कीआईएन : 02132465
स्थान: गुरुग्राम **पता:** एस-555, जीके-II, नई दिल्ली-110 048

Noida Toll Bridge Co. Ltd.
नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: L45101DL1996PLC315772
पंजीकृत कार्यालय: टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली -110091, भारत
कॉर्पोरेट कार्यालय: टोल प्लाजा, डीएनडी पलाईव, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, भारत
फोन: 0120 2516495, **वेबसाइट:** www.nbtcl.com, **ईमेल:** nbtcl@nbtcl.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

नोटिफिकेशन शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विडो का खुलना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सभी परिपक्व SEBI/HO/MIRSD/MIRSD&PoD/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, कंपनी ने उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दर्ज करने के लिए एक विशेष विडो खोली है, जो 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रियाओं/अन्य कारणों से अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/अटूट नहीं किए गए। यह विशेष विडो 6 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी।

निवेशक 6 जनवरी, 2026 तक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) के पास अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। आरटीए का विवरण इस प्रकार है :-

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
 सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लॉट 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकनगरमंडा,
 सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना: 500032
 दूरभाष नंबर: 91 40 6716 2222 / 7961 1000, ईमेल: enward.ris@kfintech.com

हस्तांतरण के लिए पुनः दर्ज किए गए शेयर, यदि स्वीकृत हो जाते हैं, तो केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे। सभी के दिशानिर्देशों के अनुसार, हस्तांतरण-सह-अनुरोध-डीमैट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया सभी परिपक्व के लिंक https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jul-2025/ease-of-doing-investment-special-window-for-re-lodgement-of-transfer-requests-of-physical-shares_94973.html देखें या हमें nbtcl@nbtcl.com पर ईमेल द्वारा संपर्क करें या हमें 0120-2516495 पर कॉल करें।

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड के लिए
गगन सिंघल
 दिनांक: 5 सितंबर, 2025
 स्थान: नई दिल्ली
 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
 एसीएस 7525

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: L74899DL1993PLC055768
पंजीकृत ऑफिस: 44, इनोव 8, बेकरी पोरन, रीगल बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, दिल्ली-110001 info@alchemist-corp.com
 /011-49098562 <https://www.alchemist-corp.com/>

32वीं वार्षिक आम बैठक और वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की 32वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"/"बैठक") मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 4 बजे बीडियों कॉन्फ्रेंसिंग ("बीसी")/अन्य ऑडियो-विडियो माध्यम ("ओवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक नेशनल फिजियोलॉज डिजिटलरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यम से होगी, जिसमें सदस्य किसी एक स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे। यह 5 मई, 2020 के मतभंग्य सफूत्र संख्या 20/2020 और इस संबंध में जारी अन्य सफूत्र के अनुपालन में होगा, जिसमें नवीनतम सफूत्र कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा 19 सितंबर, 2024 को जारी सामान्य सफूत्र संख्या 09/2024 है (जिसे सामूहिक रूप से "एमसीए सफूत्र" कहा जाता है) और 3 अक्टूबर, 2024 के सफूत्र संख्या SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIF/2024/133, जो 11 नवंबर, 2024 के मास्टर सफूत्र संख्या SEBVHO/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 के साथ है, जिसे मास्टर प्रसिद्धि और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किया गया है, और सभी द्वारा इस संबंध में जारी अन्य सफूत्र (जिन्हें सामूहिक रूप से "सभी सफूत्र" कहा जाता है)। एजीएम के नोटिस में बताए गए कार्य एजीएम में किए जाएंगे।

सेबी/ओवीएम के माध्यम से 32वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के लिए माने जाएंगे। उक्त एमसीए सफूत्र और सभी सफूत्र के अनुसार, कंपनी ने एजीएम का नोटिस, सफूत्रक विवरण और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजीएम रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण (डिप्लोमा सीरिफ) ("वार्षिक रिपोर्ट") भेजा है। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को, फिजिकल ईमेल आईडी कॉर्पोरेट डिजिटलरी प्लेटफॉर्म ("डीपी") के पत्र रजिस्टर्ड है, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट ("रिपोर्ट") भेजी है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक विवरण 06 सितंबर, 2025 को पूरा हो गया है और वे दोनों दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://www.alchemist-corp.com/> पर, NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर और BSE लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सेबी (सिस्टिम दायित्व और सूचना विनियम), 2015 ("सेबी सिस्टिम नियम") के नियम 36(1)(इ) के अनुसार, उन शेयरधारकों को जिनके ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें कंपनी की वेबसाइट का वेबलिनक और सभी पता वातावे हुए एक फिजिकल कम्युनिकेशन भेजा गया है, जहाँ से वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है। सदस्य VCOAVM सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं या कार्यवाही का लाइव सफूत्र देख सकते हैं। ई-वोटिंग और VCOAVM के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या लाइव सफूत्र देखने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, डीमैट और फिजिकल दोनों तरह के शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं किया है, के लिए नोटिस में दी गई है। सदस्य निम्नलिखित समय से लीज (30) मिनट पहले मौजूद हो सकते हैं और नोटिस के दौरान लॉगिन खुला रहेगा। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से वोट डाल चुके हैं, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे अपना वोट नहीं कर सकते। जो सदस्य VCOAVM के माध्यम से एजीएम में भाग लेते हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से वोट नहीं किया है, वे एजीएम के दौरान वोट कर सकते हैं।

एजीएम की तारीख से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि (दोनों दिन शामिल) के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	26 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (IST) तक
रिमोट ई-वोटिंग का समापन	29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (IST) तक

उपर्युक्त तारीख और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और NSDL द्वारा मतदान के लिए इसे बंद कर दिया जाएगा।

यह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ डेट यानी **23 सितंबर, 2025** मंगलवार को डिजिटलरी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ डेट पर सदस्य नहीं है, उसे एजीएम नोटिस को केवल जानकारी के उद्देश्य से ही समझना चाहिए। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार किए गए फॉर्म डेट पर कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। जो व्यक्ति फिजिकल मोड में शेयर रखते हैं और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कट-ऑफ डेट पर शेयर रखते हैं, वे evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग सुविधा के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, यानी एजीएम से पहले और/या दौरान, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या evoting@nsdl.com पर NSDL से संपर्क कर सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर नॉमिन ईमेल आईडी पर सुशी पलवती रावते, सीनियर मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी अन्य सहायता के लिए, सदस्य कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी और कंसल्टिंग ऑफिसर श्री नितिन कुमार से टेलीफोन: 9560729989 या ईमेल आईडी: info@palchemist-corp.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी ने श्री विजय सिंघल (CP No-10385) को, उनकी अनुपस्थिति में, श्री रजिवन खान (CP No-27281), मेसर्स संजय गवोर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली के पार्टनर्स को, रिमोट ई-वोटिंग सहित ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए क्यूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। एजीएम के ई-वोटिंग का परिणाम और कंसोलिडेटेड क्यूटिनाइजर रिपोर्ट कानूनी समय-सीमा के अनुसार घोषित की जाएगी और कंपनी की वेबसाइट <https://www.alchemist-corp.com/>, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी प्रदर्शित की जाएगी।

अल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर
नितिन कुमार
कंपनी सेक्रेटरी और कंसल्टिंग ऑफिसर
एसीएस: 74946

दिनांक: 9 सितंबर, 2025
स्थान: नई दिल्ली, भारत

रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (समापन प्रक्रिया में)
(सीआईएन: L71518HR1993PLC032186)
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर-28, उद्योग एर इंडियन पुरिया, फेज-III, कनौज रोड - 121003 (हरियाणा)
वेबसाइट: richaindustries.com, ईमेल: canbichha@richa@gmail.com, टेलीफोन नंबर: +91 98000 03003
30 जुन, 2025 को समापन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विवरणों का विवरण (सर्वे में साथ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय समापन	वर्ष समापन
		30.04.2025	31.03.2025
I	समापन से आय	अनुसंधान	अनुसंधान
II	आय आय	9,36.53	8,89.37
III	कुल आय (I+II)	9,36.53	8,89.37
IV	अन्य		
(a)	उपयोग किए गए समर्थों की लागत	863.81	475.04
(b)	स्टॉक-इल-टू-टू की खरीद		
(c)	वैचार मात, स्टॉक-इल-टू-टू और निष्पत्तिगत कार्य के इन्वेस्ट में परिवर्तन	19.55	85.52
(d)	अनुसंधान से आय	1,90.59	2,05.73
(e)	अन्य खर्च	3,30.58	4,27.78
(f)	लिखित लागत		3.00
(g)	मूल्यांकन और परिपक्वता व्यय	938.18	117.80
	कुल व्यय (IV)	1,530.79	1,275.88
V	अवशेषित और असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ/(हानि) (III-IV)	(594.17)	(456.63)
VI	कर से पहले का लाभ/(हानि) (V-I) कर व्यय:	(594.17)	(456.63)
(1)	बालू कर		
(2)	लिखित कर		
VII	बातू परिवर्तन से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VI-VIII)	(594.17)	(456.63)
IX	कर किए गए परिवर्तन से लाभ/(हानि)		
X	कर किए गए समापन कर कर व्यय		
XI	कर किए गए समापन से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X-XI)		
XII	अवधि का लाभ/(हानि) (IX-XII)	(594.17)	(456.63)
XIII	अन्य व्यापक आय -		
(a)	प (I) में आइटम जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
(b)	लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत होने वाले आइटम से संबंधित आयकर		
	सब-टोटल (X)		
(b)	प (I) में आइटम जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
(c)	लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत होने वाले आइटम से संबंधित आयकर		
	सब-टोटल (XI)		
XIV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII-XIV)	(594.17)	(456.63)
XV	(अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII-XIV) और अन्य व्यापक आय सहित)	2,351.83	2,351.88
XVI	प्रस्ताव इक्विटी शेयर पूंजी	2,351.83	2,351.88
XVII	अन्य इक्विटी	134,165.33	1,55,977.16
XVIII	अन्य प्रति इक्विटी शेयर आय (सर्वे में) (संद और बातू परिवर्तन के लिए)		
(1)	मूल	(2.48)	(1.96)
(2)	गामुज	(2.48)	(1.96)

नोट:

- वित्तीय परिणामों का विवरण कंपनी द्वारा रखे गए लेखा अभिलेखों से तैयार किया गया है और यह लागू लेखांकन सिद्धांतों, नीतियों और विधियों के अनुसार बनाया गया है। परिणाम सीमित समीक्षा के अधीन हैं और उनका ऑडिट नहीं किया गया है।
- दिव्यायि और शेयरों अधिमता संहिता, 2016 के तहत स्थिति पर नोट: माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएनटी) चंडीगढ़ बेंच ने 18 दिसंबर, 2018 के आदेश द्वारा, दिवायि और शेयरों अधिमता संहिता, 2016 ("संहिता") के तहत रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ कोर्टिटे दिवायि/शेयर अधिमता प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की। अरविंद कुमार को संहिता के अनुसार कंपनी के मामलों को संचालित के

	<p>प्रस. क्र. ३ (नियम-१३(१)(५) परा।)</p> <p>कर्ज वसुली न्यायाधिकरण मुंबई (डीआरटी १)</p> <p>रा. मंजला, कुलाबा, टेलिकोन भवन, कुलाबा मार्केट, मुंबई-४००००५ (५वा मजला, सिंधिया हाऊस, बॅलार्ड स्ट्रेट, मुंबई-४०० ००९)</p> <p>खटला क्र. ३: ओप/२५५/२०२५</p> <p>कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (कार्यावाही) रुस, १९९३ च्या नियम ५ च्या उप-नियम (२१) सहावाचक अंर्द्वरूपा कलम १९ च्या उप-कलम(४) अंतर्गत समस्त.</p> <p>आयडीबीी व्यापक बँक</p> <p>फिक्टु फिक्टुस मांशे</p> <p>(१) सिट्गुस मोशे डि/इन्चु/एस/ओ-मुर्कान्त ए/५४ रामसागर बिल्डिंग काव्द्राडा मुंबई, महाराष्ट-४०००८४</p> <p>येथे घुट्टा फरंट क्र.१०४ इमारत क्र. ३३ अंखली सीएचएसएल टागोर गंग ब्रिगेडी पूर्व मुंबई, महाराष्ट-४०००८३</p> <p>येथे घुट्टा धन यास किं.७७७ माणेवर आर्किड प्लेसस एललीएस मार्ग श्रेयस घाटकोपर समोर मुंबई महाराष्ट</p> <p>(२) श्री. परमुरग सुकौत मोशे ५४ रामसागर बिल्डिंग काव्द्राडनेरामुलभार भटवाडी घाटकोपर पश्चिम मुंबई ४०००८४ महाराष्ट</p> <p>येथे घुट्टा ५४ रामसागर बिल्डिंग काव्द्राडनेरामुलभार भटवाडी घाटकोपर पश्चिम मुंबई, महाराष्ट-४०००८३</p> <p>येथे घुट्टा फिनिसस फोटोग्राफी ३२ फ्रांती सेवा मंडळ घाट घाटकोपर पश्चिम आर.बी. कदम मुंबई, महाराष्ट-४०००८४</p> <p>समस्त</p> <p>ज्याअर्थी, वरील नमुद ओ/ए/२५५/२०२५ अमदार प्रबंधक/पीदासिन अधिकाऱ्यांसमोर ११/०७/२०२५ रोजी सुलीबंद केला होना.</p> <p>ज्याअर्थी, नामदार न्यायाधिकरणाने कृपावंत होउन रु. ८५६४३१/- च्या कर्जाच्या वसुलीसाठी तुमच्याविकट दाखल केलेल्या अर्द्वरूपा कलम १९ (४) अंतर्गत सदर अर्जावर (जीए) समस्त/सुचना जारी केली. (जोडलेल्या दस्तावेजांच्या प्रतिसिध अर्दी).</p> <p>अर्द्वरूपा कलम १९ च्या पोटा-कलम (४) नुसार, तुम्हा प्रतिवादींना खातीलप्रमाणे निर्देश देण्यास येत आहेत:-</p> <p>(i) विनंती केलेल्या अनुतोषांना मंजुरी का देऊ नये त्याची समस्तच्या बजावणीच्या तीस दिवसांत कारणे दाखविण्यासाठी;</p> <p>(ii) मूळ अर्जाच्या अनु. क्र. ३ए अंतर्गत अर्जदारांनी विनिर्दिष्ट केलेल्या मिळकती आणि मतांव्यतिरिक्त अन्य मिळकती आणि मतांचे तपशील जाहीर करणे;</p> <p>(iii) मिळकतीच्या जतनीसाठीच्या अर्जांवरील सुनावणी आणि निकाल प्रसंबित असल्याने मूळ अर्जाच्या अनु. क्रमांक ३ए अंतर्गत जाहीर केलेल्या अशा अनु आदेशा मुता आता मिळकतीच्या आणि तारण मतांचा व्यवहार करण्यास किंवा त्या निकाली काढण्यास तुम्हा तला मजबूत करण्यास आला आहे.</p> <p>(iv) तुम्ही न्यायाधिकरणाची पूर्व परवानगी घेतल्याखेरीज ज्यावर तारण हितसंबंध बनवले आहेत त्या कोणत्याही मतांची आणि/किंवा मूळ अर्जाच्या अनु. क्रमांक ३ ए अंतर्गत जाहीर किंवा विनिर्दिष्ट केलेल्या अन्य मता आणि मिळकतीचे वत्यांच्या व्यवसायाच्या सामान्य कामकाजाव्यतिरिक्त विक्री, भाडेगुट्टा किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरण करणार नाहीत.</p> <p>(v) व्यवसायाच्या निवमिक्त कामकाजाच्या ओघांत तारण मता किंवा अन्य मता व मिळकती यांच्या विक्रीतून रोखड झालेल्या विक्री रकमेचा हितोप देण्यास तुम्ही बांधील असाल व अशी विक्री रक्कम अशा प्रकारे तारण हितसंबंध धारण करणाऱ्या बँक किंवा नितीय संस्थेकडे ठेवलेल्या खात्याकडे जमा करू पाहिजे.</p> <p>तुम्हाला २३/१०/२०२५ रोजी दु. ११.१५ वा. लेखी निवेदन सादर करून त्याची एक प्रत अर्जदारांना सादर करण्याचे व प्रबंधकांना समोर हजर राहण्याचे देखील निदेश देण्यात येत आहेत, कसूर केल्यास, तुम्ह्या गृहजेवरील अर्जावर सुनावणी होउन निकाल दिला जाईल.</p> <p>माझ्या हस्ते आणि झा न्यायाधिकरणाच्या शिक्क्याचे हया दिनांक: २३/०७/२०२५ रोजी दिले.</p> <p>समस्त जारी करण्याकरीता प्राधिकृत अधिकारांची स्वाक्षरी</p> <p>प्रबंधक</p> <p>मुंबई डी.आर.टी.-मुंबई</p> <p>टिप: प्रचोयच नसेल ते वागडावे</p>
--	--

<p>क्यूएमएस मेडीकल अलाईड सव्हिसेस लिमिटेड</p> <p>सीआयएन : एन३३३०१एमएस२०१७पीएसटी२१७४८</p> <p>नोंदणीकृत कार्यालय: ए१ ए२/बी१/३१, नकसा भाती बिन्डींग, प्लॉट क्र.१६, प्रभात कॉलनी, सांताक्रूझ नस रोपोजवळ, सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई महाराष्ट-४०० ०५५, वेबसाईट: https://qmsmas.com टेलि.क्र : ४९१ २२६८८ ११११ ईमेल: contact@qmsmas.com</p> <p>०८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना</p> <p>याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की क्यूएमएस मेडिकल अलाईड सव्हिसेस लिमिटेड (“कंपनी”) च्या सदस्यांची आठवी (८वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (“एजीएस”) एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी सोमवार, २९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. ११.०० वा. (भाप्रवे) ब्रिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमांद्वारे (“ओव्हीएम”) आयोजित केली जाईल.</p> <p>कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार सहावाचा निगम व्यवहार मंजराव द्वारे जारी केलेल्या डिसेंबर २८, २०२२ दिनांकित सर्वसाामान्य परिपत्रक क्र. १०/२०२२, मे ५, २०२२ दिनांकित सर्वसाामान्य परिपत्रक क्र. ०२/२०२२ आणि डिसेंबर १४, २०२१ सहावाचा जानेवारी १३, २०२१, मे ५, २०२०, एप्रिल १३, २०२० आणि एप्रिल ८, २०२० अनुक्रमे दिनांकित परिपत्रक क्र. ०२/२०२१, २०/२०२०, १७/२०२० आणि १४/२०२० आणि अलीकडचे एप्रिल १६, २०२४ दिनांकित सर्वसाधारण परिपत्रक (“एमसीए परिपत्रक”) सह वाचा सिस्कुएटिज अँड एसव्हेज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे जारी केलेले तिचे नोव्हेंबर ११, २०२४ दिनांकित मास्टर सर्व्जुअर आणि ऑक्टोबर ३, २०२४ दिनांकित परिपत्रक (“सेबी परिपत्रक”) आणि या संदर्भात जारी केलेल्या इतर लागू परिपत्रकांनुसार एजीएम व्हीसी किंवा ओव्हीएमद्वारे बोलावली जाईल.</p> <p>१. वार्षिक अहवाल पाठवणे आणि वेबसाइटवर प्रसार:</p> <p>कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०२ अन्वये स्पटीकरणात्मक विधानासह एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२४-२५ ही त्रिमास्यार, ०६ सप्टेंबर, २०२५ रोजी कंपनीच्या भागधारकांना/सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवण्यात आली आहे ज्यांचे ई-मेल पते ०५ सप्टेंबर, २०२५ रोजी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (“आरटीओ”)/डिवाइडिटी पार्टिसिपंट्स (“डीपी”) यांच्याकडे नोंदणीकृत आणि जानेवारी ५, २०२३ दिनांकित सेल/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/सीआयआर/२०२३/४, मे १३, २०२२ दिनांकित सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीएफडी/सीआयआर/पी/२०२२/६ क्रमांकित परिपत्रके सहावाचला मे १२, २०२० दिनांकित परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०-७९ सहावाचला तिचे नोव्हेंबर ११, २०२४ दिनांकित मास्टर सर्व्जुअर आणि ऑक्टोबर ३, २०२४ दिनांकित परिपत्रक (“सेबी परिपत्रक”) आणि एमसीए परिपत्रके आणि अलिंकडचे १९ सप्टेंबर, २०२४ दिनांकित परिपत्रकेच्या अनुपालनात आहेत. कंपनी वार्षिक अहवाल २०२४-२५ ची एक भौतिक प्रत त्या सदस्यांना पाठवेल जे contact@qmsmas.com वर त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आगडी आणि क्लायंट आयडी नमूद करून विनंती करतील.</p> <p>तसेच, कंपनीच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत, इतर गोष्टींबाबतच, एजीएमच्या सूचनेसह पुढील वेबसाइटसवर उपलब्ध आहे –</p> <ul style="list-style-type: none">कंपनीची वेबसाइट https://qmsmas.com येथे; स्टॉक एक्सचेंजस उदा. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com वर; आणि नॅशनल सिस्कुएटिज डिवाइडिटी लिमिटेडची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com येथे. <p>२. ई-व्होटिंग:</p> <p>कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तत्पुढीनुसार , सह वाचा इन्स्ट्रुक्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाचे संविधीय मानके – २ आणि सिस्कुएटिज अँड एसव्हेज बोर्ड ऑफ इंडिया (सिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड इडिलेगल रिक्वायर्मंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ मधील निगम ४४ द्वारे सर्वसाधारण सभेसिवधी जारी केलेले कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार एजीएमच्या आधी रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएम दायमान ई-व्होटिंगद्वारे ई-व्होटिंग सुविधा भागधारकांना/मदत्यांना देताना कंपनीला अनंद होत आहे. एजीएममध्ये व्यवहार करण्याच्या व्यवसायाच्या संदर्भात आणि या उद्देशासाठी, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्यासाठी एनएसटीएलची नियुक्ती केली आहे. ई-व्होटिंगचा तपशील खाली दिला आहे.</p> <ul style="list-style-type: none">एखादी व्यक्ती, ज्याचे नाव कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच सप्टेंबर २२, २०२५ ला सदस्यांच्या नोंदणीमध्ये किंवा कंपनीच्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये नोंदवलेले असेल, केवळ ती व्यक्ती एजीएम दायमान रिमोट ई-व्होटिंग किंवा ई-व्होटिंगद्वारे ई-व्होटिंगची सुविधा घेण्यास पात्र असेल. रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुढील मतदान कालावधीत उपलब्ध असेल:
--

ई-व्होटिंगची सुरुवात	२६ सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. ९.०० वा.
ई-व्होटिंगची समाप्ती	२८ सप्टेंबर, २०२५ रोजी सायं. ५.०० वा.

त्यानंतर रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल एनएसटीएलद्वारे मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. सदस्यांचे मतदान हक कट आणि ताखेला म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवालामधील त्यांच्या हिश्याच्या प्रमाणात अस्तीत्व.

ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते एजीएममध्ये भाग घेण्यास पात्र असतील आणि त्यांची उपस्थिती कोरमच्या हेतूने मोजली जाईल, तथापि अशा सदस्यांना पुन्हा एजीएममध्ये त्यांचे मत देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

कोणतीही व्यक्ती, जी सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स घेते आणि कंपनीची सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी शेअर्स धारण करते, ती, ज्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार रिमोट ई-व्होटिंगची प्रक्रिया अवलंबू शकते किंवा लॉगिन केडेजिन्सलस मिळवण्यासाठी मागणीचा ई-मेल Evoting@nsdl.co.in वर पाठवला जाऊ शकतो.

• **एजीएममध्ये ई-व्होटिंग :**

कंपनीने एजीएम दायमान ई-व्होटिंग प्रदान करणे निवडले आहे जे व्हीसी/ओव्हीएम प्लॅटफॉर्मसह एकत्रित केले आहे आणि त्यासाठी वेगळे लॉगिन आवश्यक नाही. एजीएम दायमान मॉडिंगच्या अधिकाऱ्याच्या ई-व्होटिंग विंडो सक्रिय केली जाईल आणि कलम २८ सदर/भागधारका जे एजीएमला उपस्थित असतील आणि त्यांनी प्रमोट ई-व्होटिंगद्वारे टाबांवार् आपले मत दिले नाही आणि अन्यथा त्यांना प्रतिबंधित केलेले नाही ते एजीएममध्ये ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.

महर्षी गणात्रा, मे. महर्षी गणात्रा अँड असोसिएट्सचे प्रोप्रायटर, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, यांची एजीएमपूर्वी/दायमान रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि पारदर्शीक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी छाननीकर्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

३. ई-मेल पत्त्याची नोंदणी करण्याची पद्धत :

ज्या सभागटांदीनी त्यांच्या ई-मेल पत्ते सह नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांची ई-मेल पत्ते खालील दिलेल्या प्रक्रियानुसार नोंदणी करण्यास विनंती आहे.

रिमोट भागधारक डीमेट भागधारकांना विनंती आहे की त्यांनी डीपीने व्हिलिह केलेले पालन करून संबंधित डीपीकडे डीमेट होलिंग्सच्या संदर्भात त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदवा.

भौतिक भागधारक लागू नाही (सर्व भागधारक डीमेट मोडमध्ये शेअर्स धारण करत आहेत)

४. संपर्क माहिती:	
ई-व्होटिंग	जर भागधारक/सदस्यांना ई-व्होटिंग सुविधा/लॉग इनशी संबंधित काही शंका असतील तर https://www.evoting.nsdl.com वर संपर्क करू शकतात किंवा शि.प्रा.प्रजक्ता पावले यांच्यासाठी टपध्वनी क्र. ०२२ – ४८८६ ७००० आणि ०२२ – २४९९७००० संपर्क साधू शकतात किंवा Evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल लिहू शकतात.
व्हीसी/ओव्हीसी	जर भागधारक/सदस्यांना लॉग इन करण्याबाबत काही शंका असतील तर ते contact@qmsmas.com पाठवू शकतात किंवा Evoting@nsdl.co.in वर किंवा टपध्वनी: ०२२ – ४८८६ ७००० आणि ०२२ – २४९९ ७००० वर संपर्क करू शकता.
टिकाण: मुंबई	तोशल जैलेश भट्टा
तारीख: सप्टेंबर ०८, २०२५	कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

गृह कर्ज केंद्र – पनवेल

शांक.क्र. ५, शाहदा टॅरेस, तळ मजला, सेक्टर-११, सीबीडी बेलारपूर, नवी मुंबई – ४०० ६१४.

(नियम ८ (१)) कब्जा सूचना (स्थावर मिळकतीकरिता)

ज्याअर्थी, निम्नव्याख्याकरीता स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्राधिकृत अधिकारी या नात्याने सिस्कुएटिजव्हेलन अँड रिक्तदृक्शन ऑफ फायनान्सिअल असेट्स् अँड एफोर्समेंट ऑफ सिस्कुएटि इंटरेटर अँव्द, २००२ अन्वये आणि कलम १३(१३) सहावाचला सिस्कुएटि इंटरेटर (एफोर्समेंट) कलम, २००२ च्या नियम ३ अन्वये जारी अधिकाऱ्या वापर करून मागणी सूचना जारी करून कर्जदार यांना खातील मुद्रगुणाने पुढील व्याजसह सूचनामधील मूल रकमेची परावर्तणे सार घेतल्याच्या प्राप्तीच्या तारखेपर्यंत ६० दिवसांत कर्तव्यास बांधिलेले होते. कर्जदार रकमेची परावर्तणे करणाना असलेले दाखले खालील नमूद कर्जदार आणि सर्वसाामान्य जनतेला सूचना देण्यात येते की, निम्नव्याख्याकरीता येथे खाली वर्णन केलेल्या **मिळकतीच्या कब्जा** त्यांना सार अर्द्वरूपा कलम १३(४) सहावाचला मूद्र कलमच्या नियम ८ आणि ९ अन्वये प्राप्त अधिकाऱ्यांवा वापर करून खातील मूद्र तारखेरोजीस घेतला. निवेदन: कर्जदार आणि सर्वसाामान्य जनतेला याद्वारे इशारा देण्यात येतो की, मिळकतीची व्यवहार करू नये आणि मिळकतीची केलेला कोणताही व्यवहार हा स्टेट बँक ऑफ इंडिया यास येथे खातील खात्यामार्फातून नमूद रक्कम आणि त्यावरील पुढील व्याज या रकमेसाठी भाग्यअर्थीत राहिल :

क्र.	कर्जदाराचे नाव	१३(२) सूचनेची तारीख / रकम	मिळकतीचे वर्णन	कब्जाची तारीख
१	श्री. प्रमोदी प्रमोद पारसेकर आणि श्री. प्रमोद धोंडू पारसेकर (गृह कर्ज खाते क्र. ४११५९८५०६५५, एचएल टॉप अप खाते क्र. ४१२२५९८५०८२९, आचआयएल टॉप-अप टॉपल खाते क्र. ४११५९८५०८४४, सुखा खाते क्र. ४१२४६१४३१८८)	२०.०६.२०२५, रु. १,७०,४८,४५१/- (रुपये एक कोटी सतर लाख अर्धेचालीस हजार चारसो एकावस मात्र) १८.०६.२०२५	पल्लं.क्र. ६०५, ६वा मजला, अँड्यासिअर ब्लॉका इमारत, वाघवा गुप, फोर्टिस हॉस्पिटलच्या जवळ, सीटीएस क्र. ७८४/१, मुलुंड पश्चिम, मुंबई – ४०००८०.	०४.०९.२०२५
२	श्री. स्वप्निल चौधरी आणि श्री. बेया चौधरी (गृह कर्ज खाते क्र. ४१३१५५९२१७७, एचएल टॉप अप खाते क्र. ४३८६९०१७७७, सुखा खाते क्र. ४१३४६१४३३२०)	२९.०५.२०२५, रु. १,१२,२०,१६४/- (रुपये एक कोटी एकोणतीस लाख वीस हजार एकसो चौसठ मात्र) २६.०५.२०२५	पल्लं. क्र. ३४०२, ३४वा मजला, इमारत क्र. ०२, अलेखानगर, साई बवई एम्प्यार, गाव रोडवेल, तालुका पनवेल, महाराष्ट्र, पिन – ४१०२०६	०३.०९.२०२५
३	श्री. मोहन वसंत डोंबळे आणि शकुंतला वसंत डोंबळे (गृह कर्ज खाते क्र. ६५१७२२१५८७७० सुखा खाते: ६५१७२१६०१६०)	१७.०५.२०२५, रु. १५,५०,४९४/- (रुपये पंधरा लाख पन्नास हजार चारसो सत्त्वावस मात्र) १७.०५.२०२५	पल्लं.क्र. ३०१, ३रा मजला, सिताराम कुटीर, प्लॉट क्र. १५, सेक्टर ८ ई, गाव रोडपल्ली, कडंबोली-४१०२०८	०३.०९.२०२५
४	श्री. वापू मारुती कंक (गृह कर्ज खाते क्र. ६५२५८६४४४९४ एचएल टॉप अप खाते क्र. ६५२५९०९६३७४ सुखा खाते क्र: ६५२५८९४२८३ सुखा खाते: ६५२५९०९६६८८)	३०.०५.२०२५, रु. १६,९०,८६८/- (रुपये सोळा लाख दहा हजार आठसो अश्वष्ट मात्र) २९.०५.२०२५	पल्लं. क्र. १/ई-१/३: ३१८, श्री गणेश कृपा को-ऑपरेटिव्ह कॅस. सोसा. लि., सेक्टर ७, घणसोली, नवी मुंबई – ४०००७९.	०३.०९.२०२५

गृह कर्ज सूचना भव्यव्याख्याकरीत असल्याने येथील सूचना संदर्भात अर्द्वरूपा कलम १३ चे उप-कलम (८) च्या तारखेची कर्जदाराने सार घेतून घेतले जात आहे.

पिन : मुंबई / नवी मुंबई

प्राधिकृत अधिकारी,
स्टेट बँक ऑफ इंडिया

तारण मतेच्या भरणाकारिता उपलब्ध वेळेच्या संदर्भात अर्द्वरूपा कलम १३ चे उप-कलम (८) च्या तत्पुढीकडे कर्जदारांचे लघ वेळून घेतले जात आहे.

दिनांक : ०७ / ०४ /०९-२०२४

टिकाण : मुंबई / नवी मुंबई

प्राधिकृत अधिकारी,
स्टेट बँक ऑफ इंडिया

<p>ICICI Prudential Asset Management Company Limited</p> <p>Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135</p> <p>Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.</p> <p>Corporate Office: ICICI Prudential Mutual Fund Tower, Vakola, Santacruz East, Mumbai – 400 055; Tel: +91 22 6647 0200/2652 5000 Fax: +91 22 6666 6582/83, Website: www.icicipruamc.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com</p> <p>Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313</p>	<p>ICICI Prudential Regular Savings Fund</p> <p>Quarterly IDCW 0.1312 12.1302</p> <p>Direct Plan – Quarterly IDCW 0.1833 14.9701</p> <p>ICICI Prudential Equity Savings Fund</p> <p>Quarterly IDCW 0.18 13.64</p> <p>Direct Plan – Quarterly IDCW 0.18 16.13</p> <p>Name of the Scheme/Plans</p> <p>Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 100/- each)^{5a}</p> <p>NAV as on September 5, 2025 (₹ Per unit)</p> <p>ICICI Prudential Savings Fund</p> <p>Quarterly IDCW 1.2835 110.2255</p> <p>Direct Plan – Quarterly IDCW 1.3111 110.5106</p> <p>₹ The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Schemes.</p> <p># Subject to deduction of applicable statutory levy, if any</p> <p>* or the immediately following Business Day, if that day is a Non – Business Day.</p> <p>The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.</p> <p>It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).</p> <p>Place: Mumbai Sd/-</p> <p>Date : September 8, 2025</p> <p>No. 007/09/2025</p> <p>To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.icicipruamc.com</p> <p>Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.</p> <p>To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.icicipruamc.com or visit AMF's website http://www.amfindia.com</p> <p>Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.</p>
---	--

<p>HEUBACH COLORANTS INDIA LIMITED</p> <p>Corporate Identification Number (CIN): L24110MH1968PLC010806</p> <p>Registered Office: Rupa Renaissance, B.Wing, 25th Floor, D-33, MIDC Road, TTC Industrial Area Juiagar, Navi Mumbai, Maharashtra, India, 400705. Contact No: +91-22 20874405; Website: www.heubach.com</p> <p>E-mail Id: investor.relations_india@heubach.com</p>	<p>Recommendations of the Committee of Independent Directors (“IDC”) of HEUBACH COLORANTS INDIA LIMITED (the “Target Company”) to the Public Shareholders of the Target Company in relation to the Open Offer (<i>hereinafter defined</i>) made by Sudarshan Europe B.V. (“Acquirer”) together with Sudarshan Chemical Industries Limited (“PAC 1”), Sudarshan Switzerland HLD1 AG (formerly known as Heubach Holding Switzerland AG) (“PAC 2”) and Sudarshan Switzerland HLD2 AG (formerly known as Heubach EBITO Chemiebetteilignungs AG) (“PAC 3”) (PAC 1, PAC 2, PAC 3, collectively “PACs”), in their capacity as persons acting in concert with the Acquirer for the purpose of the Open Offer, pursuant to and in compliance with Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 (“SEBI SAST Regulations”)</p>
<p>1. Date</p> <p>2. Name of the Target Company (TC)</p> <p>3. Details of the Open Offer pertaining to TC</p> <p>4. Name(s) of the acquirer and PACs with the acquirer</p>	<p>September 8, 2025</p> <p>Heubach Colorants India Limited</p> <p>Open offer for acquisition of up to 60,01,268 (Sixty Lakh One Thousand Two Hundred Sixty-Eight) fully paid-up equity shares of face value of INR 10/- (Indian Rupees Ten only) each (“Equity Shares”), representing 26.00% (twenty six percent) of the total voting share capital of the Target Company as of the tenth working day from the closure of the tendering period of the open offer at an offer price of INR 602.03 (Indian Rupees Six Hundred and Two and Paisea Three Only) by the Acquirer along with PACs (“Open Offer”). The Public Announcement dated October 16, 2024 (“PA”), the Detailed Public Statement published on March 10, 2025 (“DPS”), the Draft Letter of Offer dated March 18, 2025 (“DLOF”), and the Letter of Offer dated September 1, 2025 (“LOF”) have been issued by Axis Capital Limited, the manager to the Open Offer, on behalf of the Acquirer and the PACs.</p> <p>Sudarshan Europe B.V. (“Acquirer”); Sudarshan Chemical Industries Limited (“PAC 1”); Sudarshan Switzerland HLD1 AG (formerly known as Heubach Holding Switzerland AG) (“PAC 2”); and Sudarshan Switzerland HLD2 AG (formerly known as Heubach EBITO Chemiebeteiligungs AG) (“PAC 3”)</p>
<p>5. Name of the Manager to the offer</p>	<p>Axis Capital Limited Address: 1st Floor, Axis House, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 Fax: +91 22 4325 3000 Email: hcl.openoffer@axiscap.in Investor Grievance Email: axiscap.in Contact Person: Mayur Aiyal/Harish Patel Website: www.axiscapital.co.in SEBI Registration No: INM000012029</p>
<p>6. Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)</p>	<p>Kewal Handa (DIN: 00056826) – Chairman Sunirmal Talukdar (DIN: 00920608) - Member Diana Dhote (DIN:10558367) – Member</p>
<p>7. IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any</p>	<p>The members of the IDC are independent directors on the Board of the Target Company. None of the members of IDC hold any equity shares of the Target Company. None of the members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company.</p>
<p>8. Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members</p>	<p>None of the IDC Members have traded in any equity shares/other securities of the Target Company during the (a) 12 (twelve) month period preceding the date of PA and (b) period from the date of the PA till the date of this recommendation.</p>
<p>9. IDC Member's relationship with the Acquirer and PACs (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.</p>	<p>None of the members of the IDC: (a) are directors on the Board of the Acquirer; (b) hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or (c) have any contracts/ relationship with the Acquirer.</p>
<p>10. Trading in the Equity shares/ other securities of the Acquirer and PAC by IDC Members</p>	<p>None of the IDC Members have traded in any equity shares / other securities of the Acquirer and/ or the PACs during the (a) 12 (twelve) month period preceding the date of PA and (b) period from the date of the PA till the date of this recommendation.</p>
<p>11. Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable</p>	<p>The IDC has reviewed the PA, DPS, DLOF and LOF issued in relation to the Open Offer. Grant Thornton Bharat LLP (formerly Grant Thornton India LLP), engaged to provide its independent opinion with respect to the Offer Price, has opined that the Offer Price of INR 602.03 (Indian Rupees Six Hundred and Two and Paisea Three Only) per equity share is fair and reasonable and is in accordance with Regulation 8(1) and Regulation 8(3) of the SEBI SAST Regulations. Based on above, the IDC is of the opinion that as on the date of this recommendation, (a) the Offer Price of INR 602.03 (Indian Rupees Six Hundred and Two and Paisea Three Only) per equity share offered by the Acquirer and PACs is in accordance with Regulation 8(1) and Regulation 8(3) of the SEBI SAST Regulations, and (b) the Open Offer appears to be fair and reasonable.</p>
<p>12. Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)</p>	<p>The recommendation of the IDC set out in the paragraph above is inter alia based on the following: (a) The Offer Price of INR 602.03 (Indian Rupees Six Hundred and Two and Paisea Three Only) per equity share is the highest of the prices determined as per the prescribed parameters under the SEBI SAST Regulations and is consequently in accordance with Regulation 8(1) and Regulation 8(3) read with Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations. (b) Offer Price of INR 602.03/- comprises of: (a) INR 578.11 per Equity Share, computed in accordance with Regulation 8(1) and Regulation 8(3) of the SEBI SAST Regulations; and (b) interest of INR 23.92/- per Equity Share, computed at a rate of 10.00% per annum for the period between the date of entering into the underlying transaction (i.e. October 1</p>